



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 499]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 1978/ कार्तिक 19, 1900

No. 499]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 1978/KARTIKA 19, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 नवम्बर 1978

का० प्रा० 641(अ)/18 एफ ए/18 क/आई डी ए/78 :—मैसर्स
डा० पाल लोहमान (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता के स्वामित्व के 1451
जैसीर रोड, कलकत्ता-700055 स्थित औद्योगिक उपक्रम का (जिसे
इसमें आगे उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) कलकत्ता उच्च न्यायालय
के पर्यवेक्षण के अधीन ररिमापन हो गया है और कम्पनी का कारबार
बन्द हो गया है;

और केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम,
1951 (1951 का 65) (जिसे इसमें आगे इस आदेश में उक्त अधि-
नियम कहा गया है) की धारा 15क के अधीन उच्च न्यायालय से अनुज्ञेय
प्राप्त करने के पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम को चलाने या पुनः आरम्भ
करने की सम्भावना पर अन्वेषण समिति द्वारा अन्वेषण करा लिया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय होने पर कि उक्त औद्योगिक
उपक्रम को चलाने या पुनः आरम्भ करने की संभावनाएँ हैं और यह कि
उक्त औद्योगिक उपक्रम को चलाने या पुनः आरम्भ करना चाहिए उसने
उक्त अधिनियम की धारा 18 एफ ए की उपधारा (1) के अधीन
कलकत्ता उच्च न्यायालय को आवेदन किया था जिसमें उक्त औद्योगिक

उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए वेस्ट बंगाल कारमैसीटीकल एण्ड
फिटोकेमिकल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड, इलाको हाउस (दूसरी
मंजिल), 1 एण्ड 3 ब्रावोन रोड, कलकत्ता-700001 को नियुक्त करने
की अनुज्ञा मांगी थी और उच्च न्यायालय ने तारीख 21 सितम्बर, 1978
के अपने आदेश द्वारा उक्त अनुज्ञा प्रदान कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन)
अधिनियम की धारा 18क के साथ पठित धारा 18 एफ ए की उपधारा
(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वेस्ट बंगाल कारमैसीटीकल
एण्ड फिटोकेमिकल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड, इलाको हाउस (दूसरी
मंजिल) 1 एण्ड 3 ब्रावोन रोड, कलकत्ता को (जिसे इसमें आगे प्राधिकृत
व्यक्ति कहा गया है) डा० पाल लोहमान (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता
के स्वामित्व में के उक्त औद्योगिक उपक्रम के समस्त प्रबंधन को निम्न-
लिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए अपने हाथ में लेने के
लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

(i) प्राधिकृत व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी
किए गए सभी निदेशों का पालन करेगा;

(ii) प्राधिकृत व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख
से तीन वर्ष की अवधि तक पब धारण करेगा;

(iii) यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह
प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति को पहले ही समाप्त कर सकती है।

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

[क्र० सं० 4/8/72 सी यू सी]

आर० एन० चोपड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 10th November, 1978

S.O. 641(E)/18FA/18AA/IDRA/78.—Whereas Messrs Dr. Paul Lohmann (India) Limited, Calcutta owning an industrial undertaking at 145/1, Jessore Road, Calcutta-700055 (hereinafter referred to as the said industrial undertaking), is being wound up under the supervision of the Calcutta High Court and the business of the company is not being continued;

And whereas the Central Government, after obtaining permission from that High Court under section 15A of Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), (hereinafter in this Order referred to as the said Act) had caused an investigation to be made by an Investigation Committee into the possibility of running or re-starting the said industrial undertaking;

And whereas the Central Government, being of the opinion that there are possibilities of running or re-starting the said industrial undertaking and that the said industrial undertaking should be run or re-started, made an application under sub-section (1) of section 18FA of the said Act to the Calcutta

High Court praying for permission to appoint the West Bengal Pharmaceutical and Phytochemical Development Corporation Limited, Ilaco House (2nd Floor), 1 & 3, Brabourne Road, Calcutta-700001, to take over the management of the said industrial undertaking and that the High Court, has, by its Order dated the 21st September, 1978, granted the said permission.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FA read with section 18AA of the said Act, the Central Government hereby authorises the West Bengal Pharmaceutical and Phytochemical Development Corporation Limited, Ilaco House (2nd Floor), 1 & 3, Brabourne Road, Calcutta-700001 (hereinafter referred to as the authorised person), to take over the management of the whole of the said industrial undertaking owned by the Messrs Dr. Paul Lohmann (India) Limited, Calcutta, subject to the following terms and conditions, namely :—

- (i) the authorised person shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;
- (ii) the authorised person shall hold office for three years from the date of publication of this Order in the Official Gazette; and
- (iii) the Central Government may terminate the appointment of the authorised person earlier if it consider it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of three years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 4/8/72-CUS]

R. N. CHOPRA, Jt. Secy.